

NIIT Limited

Registered Office: Plot No 85, Sector 32, Institutional Area, Gurugram 122 001, (Haryana) India Tel:+91 (124) 4293000 Fax:+91 (124) 4293333 Email: info@niit.com

CIN: L74899DL1981PLC015865

www.niit.com

August 9, 2025

The Manager
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400 001

The Manager National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051

Subject: Submission of copies of newspaper advertisements for publication of extracts of Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2025

Scrip Code: BSE - 500304; NSE - NIITLTD

Dear Sir,

Enclosed herewith please find copies of the newspaper advertisements of August 9, 2025 (Financial Express and Jansatta) for publication of extracts of Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2025.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours sincerely,

For NIIT Limited

Arpita Bisaria Malhotra Company Secretary & Compliance Officer

Encls.: a/a

FINANCIAL EXPRESS



JINDAL STEEL LIMITED

(Formerly known as Jindal Steel & Power Limited)

(CIN: L27105HR1979PLC009913)

Regd. Office: O. P. Jindal Marg, Hisar -125005 (Haryana) Corporate Secretariat Office: Jindal Centre, Tower-A, 2nd Floor, Plot No.2, Sector-32, Gurgaon-122001 (Haryana) Website: www.jindalsteel.com | Email: investorcare@jindalsteel.com | Tel.: +91 124 6612000

💢 jindalsteel_ in jindal_steel 🚹 jindalsteellimited 📵 jindalsteel_ 🖭 jindalsteel

46" ANNUAL GENERAL MEETING, INFORMATION ON E- VOTING AND RECORD DATE

Notice is hereby given that the 46" Annual General Meeting ("AGM") of the members of Jindal Steel Limited (Formerly known as Jindal Steel & Power Limited) ("the Company") is scheduled to be held on Saturday, August 30, 2025 at 11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) only, to transact the business as detailed in the Notice of the AGM. The AGM is being held through VC/OAVM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act")

read with General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") General Circular Nos. 14/2020 dated April 8. 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 02/2021 dated January 13, 2021, 21/2021 dated December 2021, 02/2022 dated May 5, 2022, 10/2022 dated December 28, 2022, 09/2023 dated September 25, 2023 and subsequent circular issued in this regard, the latest being General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 ("MCA Circulars") permitted holding of the AGM through VC/ OAVM, without the physical presence of the Members at a commor venue and the Securities and Exchange Board of India vide its Circular No. SEBI/HO/DDHS/P/CIR/2022/0063 dated May 13 2022, SEBI/HO/CRD/PoD-2/P/ CIR/2023/4 dated January 5, 2023 and SEBI/HO/ CFD/ CFD-PoD-2/P/ CIR/2023/167 dated October 7, 2023 and SEBI/HO/ CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133, October 3, 2024 ("SEBI Circulars"). The Company has sent Integrated Annual Report for the financial year 2024-25 along with the Notice of the AGM on *Friday*,

August 8, 2025, through electronic mode only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agent or Depositories. The requirement of sending physical copy of the Annual Report and Notice of AGM has been dispensed with vide above MCA Circulars and the SEBI Circular. Further, in terms of Regulation 36(b) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 a letter providing weblink, including the exact path where complete details of the Integrated Annual Report is available will be sent to those shareholders who have not yet registered their email id with the Company/Depositories. The Integrated Annual Report for the Financial Year 2024-25 along with the Notice of 46" AGM is available on the website of

the Company at www.jindalsteel.com, website of the Stock Exchanges namely BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com. The Notice of AGM is available on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com, being the agency appointed for providing e-voting facility.

RECORD DATE

The record date for the purpose of determining entitlement of Shareholders for the Final Dividend for the Financial Year 2024-25 is Friday, August 22, 2025. The Dividend shall be paid to the Shareholders as on Record Date upon approval of the Shareholders in the AGM.

E-VOTING

Date: August 8, 2025

PARTICULARS

Revenue from operation

Total Income from

a) Cost of materials

b) Changes in Inventories of finished goods.

work in progress and stock in trade

amortisation expense

c) Employee benefits

e) Depreciation and

f) Other expenses

Profit(+)/ Loss(-) before

exceptional items (3-4)

Total Expenses

Exceptional Items

Profit(+)/ Loss(-)

before tax (5-6)

Tax Expenses (1) Current tax

(2) Deferred tax

after Tax (7-8)

Income / (Loss)

12 Paid-up equity share

of Re.1/- each)

13 Reserves excluding

capital (Face Value

revaluation reserves

14 EPS for the period (Rs.)

(not annualised)

a. Basic

Notes:

b. Diluted

accepted in India:

as per Balance Sheet of

previous accounting year

limited review of the aforesaid results.

at www.centuryextrusions.com

Net Profit(+)/ Loss(-)

Other Comprehensive

Total Comprehensive

Income for the period

operation (1+2) Expenses

consumed

expense

d) Finance Cost

Place: New Delhi

PART-I

Other Income

Œ

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with Rules 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and MCA Circulars, the Company is providing the facility of remote e-voting to the Members prior to the AGM and during the AGM in respect of the business to be transacted at the AGM. The members holding shares either in physical form or in electronic mode as on the cut-off date i.e., Saturday, August 23, 2025, may cast their vote electronically, in accordance with the instructions provided in the notice of AGM. The members are requested to carefully read the instructions given for remote e-voting and e-voting provided in the notice of AGM

Any person, who acquires shares of the Company, after the dispatch of notice of AGM and becomes member of the Company may obtain the login id and password by sending email at investorcare@jindalsteel.com or may write to the Company Secretary Department at Jindal Centre, Tower-A, 2nd Floor, Plot No.2, Sector-32, Gurugram - 122001.

The Company has appointed M/s Navneet K Arora & Co. LLP. Company Secretaries as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in the transparent manner.

The Remote e-voting facility will be available during the following voting period:

Date and time of commencement of remote e-voting facility: Wednesday, August 27, 2025 at 09:00 A.M. (IST)

Date and time of end of remote e-voting facility: Friday, August 29, 2025 at 05:00 P.M. (IST). The remote e-voting module for voting shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time and remote e-voting shall

CENTURY EXTRUSIONS LIMITED

Regd. Office:

113 Park Street, N Block, 2nd Floor, Kolkata - 700016

Email: century@centuryextrusions.com

Website: www.centuryextrusions.com

Tel: +91(033) 2229 1012/1291; Telefax: +91(033) 2249 5656

CIN: L27203WB1988PLC043705

Quarter Ended

11979

12023

9004

92

574

291

76

1658

11695

328

328

83

(22)

267

(5)

262

800

0.33

0.33

44

30.6.2025 | 31.3.2025 | 30.6.2024 | 31.3.2025 Un-Audited Audited Un-Audited Audited

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE, 2025

10415

10421

8006

(170)

495

267

122

1387

10107

314

314

78

236

237

800

0.30

0.30

. The above results have been reviewed by the Audit Committee at their

meeting held on 8th August, 2025 for the quarter ended 30th June 2025 and

thereafter were approved by the Board of Directors at their meeting held on 8th August, 2025. The Statutory Auditors of the Company have carried out

These financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards("IND AS") prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally

The Company has two business segments i.e. manufacturing of Aluminium

Extruded Products and manufacturing Transmission and Distribution Line

Hardware. However, the Company does not fall under any of the criteria laid

The above is an extract of the detailed fromat of quarterly results filed with

the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligation

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the

quarterly results are available on the Stock Exchange of BSE at www.bseindia.com , NSE at www.nseindia.com and on Company's website

Ind AS 115, Revenue from Contracts with Customers, mandatory for reporting

periods beginning on or after April 1, 2018, replaces the existing revenue

recognition requirements. As per the assessment of the Company, on

adoption of Ind AS 115, there is an increase in the profit of the Company by

down under Ind AS - 108 and hence segment Reporting not applicable.

not be allowed thereafter. However, the facility of e-voting shall also be made available during the AGM and the members, who have not already cast their vote by remote e-voting, shall be able to exercise their right during the AGM. Members may attend the AGM through VC/OAVM even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not

be allowed to vote again through e-voting at the meeting. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and

e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk, evoting@cdslindia.com or contact at toll free no 1800 21 09911. For Jindal Steel Limited

(Rs. in lacs Except EPS

10142

10150

7495

436

438

225

87

1142

9823

327

327

83

243

244

800

0.30

0.30

Twelve

Months

Ended

43125

43195

33513

(301)

1914

1037

343

5408

41914

1281

1281

308

(21)

994

(2)

992

800

1.24

1.24

70

(Formerly known as Jindal Steel & Power Limited)

Sabyasachi Bandyopadhyay Wholetime Director DIN: 10087103

NIIT Limited

Regd Office: Plot No. 85, Sector - 32, Institutional Area, Gurugram - 122001 (Haryana) India

Tel: +91 (124) 4293000 Fax: +91 (124) 4293333 Website: www.niit.com Email: investors@niit.com

Corporate Identification Number: L74899HR1981PLC107123

Extract of Unaudited Financial Results for the guarter ended June 30, 2025 (Rs. in Millions, except per share data)

	Particulars	Consolidated				Standalone				
			Quarter ended	d	Year ended	Quarter ended			Year ended	
S. No.		3 months ended June 30, 2025 Unaudited (Refer note 4)	3 months ended March 31, 2025	Correspond- ing 3 months ended June 30, 2024 Unaudited	Previous year ended March 31, 2025 Audited	3 months ended June 30, 2025	Preceding 3 months ended March 31, 2025	Correspond- ing 3 months ended June 30, 2024	Previous year ended March 31, 2025	
						Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	
31	Total Income from Operations	841,17	862.85	824.75	3,575.83	267,64	284.99	300.28	1,259.52	
2	Net Profit for the quarter (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	69.29	168.35	97.54	591.64	49.03	194.69	58.06	383.33	
3	Net Profit for the quarter before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	50.03	165.85	97.54	589.14	47.75	192.19	58.06	380.83	
4	Net Profit for the quarter after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) (before discontinued operations)	42.43	137.73	82.78	495.13	46.63	190.85	57.31	375.86	
5	Loss after tax from discontinued operations	(0.51)	(0.76)	(0.83)	(14.97)	(0.51)	(0.76)	(0.83)	(14.97)	
6	Net Profit for the quarter after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	41.92	136.97	81.95	480.16	46.12	190.09	56.48	360.89	
7	Total Comprehensive Income for the quarter [Comprising Profit for the quarter (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	31.94	135.06	78.17	487.16	38.14	185.96	54.87	361.54	
8	Paid-up equity share capital (face value of Rs. 2 each, fully paid)	271.45	271.19	270.57	271.19	271.45	271.19	270.57	271.19	
9	Reserves excluding revaluation reserves				10,517.53				10,357.74	
10	Earnings/(Loss) Per Share (of Rs. 2/- each) (not annualised for the quarter, in Rs.) Continuing Operations - Basic - Diluted	0.32 0.31	0.98 0.97	0.58 0.57	3.52 3.47	0.34 0.33	1.41 1.39	0.43 0.42	2.78 2.74	
	Discontinued Operations - Basic - Diluted	(0.00)	(0.01) (0.01)	(0.01) (0.01)	(0.11) (0.11)	(0.00) (0.00)	(0.01) (0.01)	(0.01) (0.01)	(0.11) (0.11)	
	Continuing and Discontinued Operations - Basic	0.32	0.97	0.57	3.41	0.34	1,40	0.42	2.67	

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of quarterly / year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended). The full format of Financial Results is available on the website of Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website www.niit.com under Investors --> Disclosures under Regulation 46 of the LODR → Financial Results. The same can also be accessed by scanning the QR code given below.
- The above results were reviewed and recommended by Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on August 08, 2025.

Sr.

No

Place: Mumbai

Dated :08th August, 2025.

Total Income from Operations represent revenue from operations.

On April 17, 2025, the Group entered into Share Subscription and Purchase Agreement ("SSPA") and other related transaction documents with iamneo Edutech Private Limited ("NEO") and acquired 70% equity shareholding (on a fully diluted basis) in NEO for a consideration of Rs. 608.90 Million including primary investment of Rs. 100.01 Million. The remaining 30% shareholding of NEO will be acquired by the Group from the NEO promoters in subsequent tranches over the next five years, subject to certain terms and conditions outlined in the SSPA and other transaction documents. The Consolidated Financial Results for guarter ended June 30, 2025, includes performance of NEO for the period from April 17, 2025 to June 30, 2025. Consequently, the results for the current period are not comparable with the corresponding previous periods.



By order of the Board For NIIT Limited

Vijay K Thadani Vice-Chairman & Managing Director

INDIA FINSEC LIMITED

Place: Gurugram

Date: August 08, 2025

REGD. OFFICE: D-16, IST FLOOR, ABOVE ICICI BANK PRASHANT VIHAR, SECTOR-14, ROHINI, NEW DELHI-110085 WEBSITE: www.indiafinsec.com, EMAIL: indiafinsec@gmail.com, PHONE - 011-47096097 EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIA RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2025 (IND-AS COMPLIANT) (Rs. In lacs)

		ALTO DESCRIPTION	Charles and the Control of the Contr		(Margo, apparatus				
П	STANDALONE				CONSOLIDATED				
Sr.	Particulars		Quarter Ende	d	Quarter Ended				
no		30-Jun-25 (Unaudited)	31-Mar-25 (audited)	30-Jun-24 (Unaudited)	30-Jun-25 (Unaudited)	31-Mar-25 (audited)	30-Jun-24 (Unaudited		
1	Total income from operations (net)	0.88	0.12	58.93	1,869.18	1,815.08	1,709.57		
2	Net Profit for the period (before tax, Exceptional and Extraordinary Items)	(10.70)	(2.21)	50.89	702.76	599.11	583.29		
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (After Exceptional and Extraordinary Items)	(10.70)	(2.21)	50.89	702.76	599.11	583.29		
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	(8.05)	(1,69)	33,51	535.86	457.22	438.73		
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	(8.05)	(1,69)	33.51	535.86	457,22	438.73		
6	Paid-Up Equity Share Capital	2,919.17	2,919.17	2,494.17	2,919.17	2,919.17	2,494.17		
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet)		-						
8	Earnings Per Share (before & after extraordinary items) (of Rs. 197- each) Basic Diluted:	(0.03)	(0.01) (0.01)	0.13 0.13	1,84 1,84	7.11 7.11	1.76 1.76		

NOTES:

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Annual Financial Results is available on the Stock Exchanges websites i.e. (www.bseindia.com) and also available on the Company's Website www.indiafinsec.com
- The aforesaid results were placed before and reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 07th August, 2025.
- The consolidated results include those of the subsidiary Company viz. IFL Finance Limited (Formerly Known as IFL Housing

Date : 07.08.2025

Finance Limited).

Place: New Delhi

Gopal Bansal Chairman & Managing Director

For India Finsec Limited

MITSU CHEM PLAST LIMITED

Registered Office: 329, Gala Complex, 3rd Floor, Din Dayal Upadhyay Marg, Mulund (W), Mumbai – 400 080. CIN: 125111MH1988PLC048925 | Email: investor@mitsuchem.com | Phone No: 022-2592 0055

	EXTRACT OF UNAUDITED FINA				₹ in Lakh:
Sr. No.	PARTICULARS	3 months ended 30.06.2025	3 months ended 31.03.2025	3 months ended 30.06.2024	12 months ended 31.03.2025
mu.		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total Income	8,540.39	9,050.68	8,039.71	33,287.97
2	Profit/(Loss) from ordinary activities before Exceptional items and tax	178.81	475.59	150.18	1,000.75
3	Profit/(Loss) before tax	178.81	475.59	150.18	1,000.75
4	Total Other comprehensive income, net of tax	-	(18.74)		(18.74)
5	Total comprehensive income	131.16	335.44	108.78	706.35
6	Paid up equity share capital (Face Value of ₹10 Each)	1,357.80	1,357.80	1,357.01	1,357.80
7	Other Equity excluding Revaluation Reserve as per balance sheet of previous accounting year	=	28		8,340.39
8	Basic Earning Per Share (EPS)	0.97	2.61	0.81	5.39
9	Diluted Earning Per Share (EPS)	0.97	2.61	0.80	5.39

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the website of BSE Ltd. and at the Company's website at www.mitsuchem.com.

. The 37th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Company will be held on Thursday, September 04, 2025 at 04.00 p.m.(IST) through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") and the Notice of the AGM along with the Annual Report will be sent only by electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Registrar & Share Transfer Agent ("R&T Agent") / Depositories. Annual Report of the Company along with Notice of AGM for the FY25 will also be available on the Company's website at www.mitsuchem.com and on the website of BSE Ltd. at www. bseindia.com. The instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of the AGM. The Company is providing remote e-Voting facility ("remote e-Voting") to all its Members to cast their votes on all resolutions as set out in the Notice of the AGM Detailed procedure for remote e-Voting during the AGM will be provided in the Notice of the AGM. Members who have not updated their bank account details for receiving the dividend directly in their bank accounts and who have not yet registered their email addresses are requested to get their details registered/updated with Depositories /R&T Agent of the Company.

By order of the Board of Directors For MITSU CHEM PLAST LIMITED

SHREYAS INTERMEDIATES LIMITED

(CIN: L24120PN1989PLC145047) Regd. Office: D-21-24 ,MIDC Lote Parshuram, Taluka Khed, Ratnagiri-415722 Phone No. 02356-272471; Email Id: info.shreyasintermediates@gmail.com; Website: www.shreyasintermediates@o.in

Extract of audited Financial Results for the Quarter Ended 30th June, 2025 (INR in Lacs) For the Quarter ended on Year ended 30-06-2025 31-03-2025 30-0 -2024 31.03.2025 Particular Unaudited Audited Unaudited Audited 1 Total Income from Operations 14

Total income from Operations	044	379	9.6	UZ
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	(34)	(3.)	(40)	(159)
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(34)	(30)	(40)	(159)
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(34)	(30)	(40)	(159)
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	///////// 2714	,	959	
Equity Share Capital	7,085	7,085	7,085	7,085
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	*1	-		5,846
Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (for continuing and discontinued operations) - 1. Basic:	(0.05)	(0.04)	(0.06)	(0.22)
2. Diluted:	(0.05)	(0.04)	(0.06)	(0.22)
	Extraordinary items#) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (for continuing and discontinued operations) -	Extraordinary items#) (34) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#) (34) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#) (34) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] - Equity Share Capital 7,085 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year - Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (for continuing and discontinued operations) - (0.05) 1. Basic:	Extraordinary items#) (34) (36) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#) (34) (30) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#) (34) (30) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capital 7,085 7,085 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (for continuing and discontinued operations) - (0.05) (0.04) 1. Basic:	Extraordinary items#) (34) (37) (40) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#) (34) (30) (40) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#) (34) (30) (40) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capital 7,085 7,085 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (for continuing and discontinued operations) - (0.05) (0.04) (0.06) 1. Basic:

 The above financial results which are published in accordance with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') have been reviewed by the Audit Committee at a meeting held on 8th August, 2025 and approved by the Board of Directors at their meeting held on 8th August, 2025. The financial results are prepared in accordance with the Ind AS prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies. 2) The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The figures of the previous periods (quarter/year) have been regrouped/rearranged/reclassified wherever considered necessary.

> For and on behalf of the Board of Directors For Shreyas Intermediates Limited

Naresh Kumar Swami Director DIN: 09530485



SS Biocon

(Rs. in Million, except per equity share data 3 months ended Year ended 3 months ended 31.03.2025 30.06.2025 30.06.2024 **Particulars** (Unaudited) (Unaudited) Audited I Revenue from operations 39,419 1,52,617 34,329 II. Profit before exceptional items and tax 969 17,901 11,135 III Profit before tax 969 18.866 11,455 314 6,597 IV Profit attributable to shareholders of the Company 10.133 V | Total comprehensive income attributable to shareholders (1,735)13,696 6,837 of the Company VI Paid-up equity share capital [Face value of Rs. 5 each] 6,685 6,003 6,003 2,10,437 VII Reserve as shown in the audited balance sheet (not annualised) VIII Earnings per share [of Rs. 5 each] (annualised) (not annualised) 8.46 (a) Basic 0.26 5.51 8.46 (b) Diluted 0.26 5.51

1. Key	standalone financial information
	Portionlara

	Particulars Revenue from operations Profit before tax Net Profit for the period	Year ended 31.03.2025	3 months ended 30.06.2024	
		(Unaudited)	Audited	(Unaudited)
- 1	Revenue from operations	5,371	22,426	5,106
-11	Profit before tax	(76)	6,609	11
-111	Net Profit for the period	(83)	6,093	9

- The unaudited standalone and consolidated financial results for the quarter ended June 30, 2025 in respect of Biocon Limited ('the Company') have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on August 07, 2025. The reports of the statutory auditors are unqualified
- These financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other accounting principles generally accepted in India and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.biocon.com/investor-relations and the same can also be accessed by scanning the QR code provided.



Place : Kolkata Date: 08.08.2025

Rs.7.42 Lakhs for the quarter ended 30th June 2025

Shivanshu Jhunjhunwala Chairman and Managing Director DIN:-05252910

For Century Extrusions Ltd.

Date: August 7, 2025

Place : Mumbai

epaper.financialexpress.com

Jagdish Dedhia Chairman and Whole-Time Director

New Delhi

The above is an extract of the detailed format of unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges.



अमेरिका से सैन्य साजो सामान खरीद रोकने की खबरें झुठी

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 8 अगस्त।

पंकज रोहिला

नई दिल्ली, 8 अगस्त।

रक्षा मंत्रालय के सुत्रों ने भारत द्वारा अमेरिका के साथ नई रक्षा खरीद से संबंधित वार्ता रोकने की मीडिया में आ रही खबरों को शुक्रवार को खारिज करते हुए उन्हें 'झूठा और मनगढ़ंत' करार दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि खरीद के विभिन्न मामलों को मौजुदा प्रक्रियाओं के अनुसार आगे बढ़ाया जा रहा है।

एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया प्रतिष्ठान ने अपनी खबर में दावा किया था कि भारत ने संभवतः नई रक्षा-संबंधी खरीद की अपनी योजनाओं को स्थिगत कर दिया है। यह खबर अमेरिका द्वारा भारत पर शुल्क लगाए जाने के बाद दोनों देशों में बढ़े तनाव के बीच आई। अमेरिका के राष्ट्रपति

अनुसूचित जाति-जनजाति परिवारों के घर का सपना

सच करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए)

को एक विशेष नीति (पुल) बनाए जाने की जरूरत है

ताकि ऐसे फ्लैट जरूरत पड़ने पर संबंधित परिवारों को

आबंटित किए जा सके। संसद की विशेष समिति ने केंद्र

सरकार को यह सिफारिश की है। रपट में बताया गया

है कि ऐसे आवास जो अब तक इस श्रेणी में आबंटित

नहीं हो पाते थे, उन आवास को अनारक्षित श्रेणी के

परिवारों को दे दिया जाता था। समिति ने साफ कहा कि

ऐसे आवेदकों का विशेष पुल तैयार करके इनके लिए

अलग से योजना को पेश किया जा सकता है। इसका

के आवेदकों को कुल आवासीय इकाइयों का 19.17

और 4.7 फीसद आबंटन किया गया है। यह पहल

केवल आंबेडकर आवास योजना और डीडीए की 2019 की विशेष योजना को पुरा करने के लिए किया

गया था। आंबेडकर योजना में 97.15 फीसद एससी

और 1.42 फीसद एसटी आवेदकों के लिए थी। रपट में

कहा गया है चिंता की बात यह हे कि आंबेडकर योजना

में रद्दीकरण का फीसद 44.72 फीसद और विशेष

आवासीय योजना में 41 फीसद था। इस दर को समिति

संख्या बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार छूट में राहत, फ्लैट

की दरों में कटौती और वित्तीय सहायता जैसे प्रावधान

करने चाहिए। इस मामले में शहरी आवास और शहरी

मामलों के मंत्रालय को संबंधित रपट भेजने के लिए

कहा गया है। यह रपट दिल्ली विकास प्राधिकरण

(डीडीए) की सेवाओं और वाणिज्यिक तथा आवासीय इकाइयों के आबंटन में अनुसूचित जातियों और

अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण के लिए तैयार की

गई है। इसे अनुसूचित जातियों और जनजातियों के

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to

acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify

its contents. The Indian

Express (P) Limited cannot

be held responsible for such

contents, nor for any loss or

damage incurred as a result of

transactions with companies,

associations or individuals

advertising in its newspapers

or Publications. We therefore

recommend that readers

make necessary inquiries

before sending any monies

or entering into any

agreements with advertisers

or otherwise acting on an

👉 रेलयात्री कृपया ध्यान दें! 👈

दिल्ली जं. – सीतामढ़ी – दिल्ली जं. के बीच

नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेल सेवा का शुभारम्भ

समस्त रेलयात्रियों को सूचित किया जाता है कि रेलवे द्वारा

दिल्ली जं.-सीतामढ़ी-दिल्ली जं. के बीच नई साप्ताहिक अमृत

भारत रेल सेवा सं. 14048/14047 का शुभारम्भ किया जा रहा

रेलगाड़ी सं. 14048/14047 दिल्ली जं.-सीतामढ़ी-

दिल्ली जं. अमृत भारत एक्सप्रेस (साप्ताहिक)

स्टेशन

दिल्ली जं.

गाजियाबाद

द्रण्डला ज.

कानपुर सेंट्रल

लखनऊ जं.

गोण्डा जं.

वस्ती

गोरखपुर जं.

कप्तानगंज जं.

सिसवा बाजार

बगहा

नरकटियागंज जं.

सिकटा

रक्सौल जं.

वैरगनियां

सीतामढी

चलने के दिन: 14048 दिल्ली जं. से प्रत्येक शनिवार को दिनांक

09.08.2025 से तथा 14047 सीतामढ़ी से प्रत्येक रविवार को दिनांक

रेलयात्रियों से अनुरोध है किसी भी जानकारी के लिए

कृपया रेलमदद हेल्पलाइन नं. 139 पर सम्पर्क करें

अथवा रेलवे की वेबसाइट https://enquiry.indianrail.gov.in

अथवा NTES ऐप देखें।

स्थानः शयनयान एवं सामान्य श्रेणी।

आपकी सुविधा–हमारा ध्येय

हमें www.nr.indianrailways.gov.in पर मिले

है। इस अमृत भारत सेवा का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:--

advertisement in

manner whatsoever.

गाड़ी सं. 14048

14:40

16:53

20:05

22:10

00:25

01:50

03:15

04:10

04:50

06:33

07:15

07:43

08:10

09:08

10:45

10.08,2025 स

200

पर हमें कॉलो करें

प्रस्थान

14:00

14:42

16:55

20:10

22:20

00:30

01:53

03:25

04:12

04:52

06:35

07:20

07:45

08:15

09:10

समिति ने सिफारिश की है कि इन आवेदकों की

रपट में बताया गया है कि बीते 25 वर्ष में इस श्रेणी

लाभ संबंधित वर्ग के लोगों को मिलेगा।

ने काफी अधिक माना है।

लोकसभा की समिति ने की सिफारिश

एक विशेष नीति बनाकर डीडीए करे

आरक्षित श्रेणी के आवासों का आबंटन

एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया प्रतिष्ठान ने अपनी खबर में दावा किया था कि भारत ने संभवतः नई रक्षा-संबंधी खरीद की अपनी योजनाओं को स्थगित कर दिया है।

डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते भारत पर 25 फीसद पारस्परिक शुल्क लगाने की घोषणा की थी जो सात अगस्त से प्रभावी हो गया।

ट्रंप ने बुधवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद पर 25 फीसद अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है, जिससे कुल शुल्क 50 फीसद हो गया है, जो विश्व में किसी भी देश पर अमेरिका द्वारा लगाया गया सर्वाधिक शुल्क है। अतिरिक्त 25 फीसद शुल्क 21 दिन बाद 27 अगस्त को लागू होगा।

समिति ने खाली रह जाने वाले फ्लैट अनारक्षित श्रेणी

को देने पर एतराज जताया है। अनुसूचित जाति व

जनजाति के खाली पदों को लेकर भी समिति ने

नाराजगी जताई है।

कल्याण संबंधित समिति के अध्यक्ष डा फग्गन सिंह

कुलस्ते ने यह रपट लोकसभा में पेश की है। इस समिति

में लोकसभा के बीस और राज्यसभा के दस सदस्य

शामिल थे। इसके अतिरिक्त सदन की समिति ने बीते

दस वर्ष में 88 एससी और 36 एसटी श्रेणी के लिए दी

गई दुकानों के मामले को भी संज्ञान में लिया है। समिति

ने साफ कहा है कि डीडीए इन दुकानों के मामले में दरें

कम करने के बाद भी कोई आबंटन प्रक्रिया को तेज

नहीं किया है। इसके लिए समिति ने सभी दुकानों के

लिए एक विशेष योजना बनाने की सिफारिश की है और

इसमें पुरानी योजनाओं को भी शामिल करने के लिए

कहा है कि ताकि उनकी खामियों से सबक लेकर इस योजना को आम जन के लिए बेहतर तरीके से लागू

किया जा सके। समिति ने कहा है कि ऐसे मामलों के

लिए डीडीए को योजना को आगे बढ़ाने के लिए विलंब

शुल्क को भी माफ किया जाना चाहिए ताकि संबंधित

वर्ग के लोग इन दुकानों व व्यवसायिक परिसरों के

कम अवधि वाली नियुक्ति को छोडकर सभी अस्थायी

नियुक्ति के लिए संबंधित वर्ग को प्राथमिकता देने की

भी सिफारिश की है। सिमिति ने कहा कि इसके लिए

संबंधित ठेकेदारों पर दवाब डाला जाए और इसके

अतिरिक्त डीडीए द्वारा किए जाने वाले समझौतों में भी

इसके लिए एक खंड जोड़ा जाए ताकि इन वर्ग के लोगों

के लिए प्रमुखता मिल सके। इसके अतिरिक्त सभी

सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाए, क्योंकि यह

सबसे निचले स्तर का संगठन है। सफाई कर्मचारियों 🚮

सीधी भर्ती करते समय संविदा पर काम 💅 रहे

समिति ने करीब पांच साल के अंदर में 45 दिनों से

आबंटन से वंचित नहीं रहे।

कर्मचारियों को वरीयता दी जाए।

एमको इंडिया लिमिटेड CIN: L74899DL1987PLC029035

पंजीकृत कार्यालय : 10795, शॉप नं. जीएफ-7, झंडेवालान रोड, रेक्सीन बाजार, नबी करीम,

नई दिल्ली-110055, पोन नं : 011 - 23636320

ई-मेल : amco.india@ymail.com

वेबसाइट : www.amcoindialimited.com

एतदहारा सूचना दी जाता है कि भारतीय प्रतिभूत एवं

विनियम बोर्ड (सुवीयन दायित्व और प्रकटीकरण अधेशाए)

विनियमावली, 2015 के विनियम 29 एवं 33 के

अनुसरण में कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक

बृहस्पतिवार, 14 अगस्त, 2025 को सी-53-54,

एवं अनुमोदित किए जाएंगे।

वहीं, एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया प्रतिष्ठान ने अपनी रपट में कहा था कि शुल्क के कारण भारत द्वारा जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम्स द्वारा निर्मित स्टाइकर लडाक वाहनों और रेथियान व लाकहीड मार्टिन द्वारा विकसित जैवलिन एंटी-टैंक मिसाइलों की खरीद पर चर्चा स्थगित कर दी गई है। टुंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी में इन वस्तुओं की खरीद और संयुक्त उत्पादन की योजना की घोषणा की थी। सूत्रों ने बताया कि सिंह अपनी अब रद्द हो चुकी यात्रा के दौरान

भारतीय नौसेना के लिए छह बोइंग टोही विमानों और सहायक प्रणालियों की खरीद की घोषणा करने की भी योजना बना रहे थे। अधिकारियों के अनुसार, प्रस्तावित 3.6 अरब डालर के सौदे में इन विमानों की खरीद पर बातचीत अंतिम चरण में थी। लेकिन रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने इस खबर को 'झठा और मनगढंत' करार दिया।

चंद्र प्रभु इंटरनेशनल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 522, पाँचवीं मंजिल, डीएलएफ गैलेरिया कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, डीएलएफ सिटी फेज IV, गुरुग्राम, हरियाणा-122009 सीआईएनः L51909HR1984PLC133745

ईमेलः info@cpil.com, cs@cpil.com वेबसाइटः www.cpil.com

30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों का विवरण

30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणाम (''वित्तीय परिणाम'') की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 08 अगस्त, 2025 को आयोजित उनकी संबंधित बैठक में अनुमोदित किया गया है।

वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर और कंपनी की वेबसाइट https://www.cpil.com/financial-results.php पर उपलब्ध है। इसे क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है।

कृपया पूर्ण वित्तीय परिणाम देखने के लिए नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन



निदेशक मंडल की ओर से चंद्र प्रभु इंटरनेशनल लिमिटेड

हस्ता. / – गजराज जैन

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डीआईएनः 00049199

मोर्गन वेंचर्स लिमिटेड सीआईएन : L80106DL1986PLC025841

पंजी कार्याः 37, रिंग रोड, लाजपत नगर - IV, नई दिल्ली 110024 ईमेल आईडी : secretarial@goyalgroup.com, वेबसाइट : www.morganventures.in, दूरमाष : 011-26432601 30 जून 2025 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का साराँश (रु. लाख में, ईपीएस छोड़कर)

क्र.			समाप्त वर्ष			
सं.	विवरण	30—06—2025 (अलेखापरीक्षित)	31—03—2025 (लेखापरीक्षित)	30—06—2024 (अलेखापरीक्षित)	31—03—2025 (लेखापरीक्षित)	
1	परिचालनों से कुल आय	552.53	1241.83	727.83	4670.28	
2.	अवधि का निवल लाभ / (हानि), (कर, आपवादिक मदों से पूर्व)	66.39	787.12	409.14	3308.12	
3.	कर उपरांत अवधि का निवल लाभ / (हानि) (आपवादिक मदें)	104.58	670.41	500.83	2561.83	
4.	अवधि की कुल व्यापक आय ख्अवधि के लाभ / (हानि) (कर उपरांत) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरांत) से समाविष्ट,	104,58	670.41	500.83	2561,83	
5.	समता अंश पूंजी	994.93	994.93	994.93	994.93	
6.	आरक्षितियाँ (पुनर्मूल्याँकन आरक्षित छोड़कर) पूर्ववर्ती वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन—पत्र में निदर्शितानुसार	8040.61	7936.03	5875.03	7936.03	
7.	आय प्रति अंश (रु. 10 /— प्रत्येक का) (परिचालनरत् तथा अपरिचालित परिचालनों हेतु) 1. मूलभूत (रु. में) : 2. तरलीकृत (रु. में) :	1.06 1.06	6.77 6.77	5,06 5.06	25.88 25.88	

टिप्पणियाँ : 1. उपरोक्त परिणामों की पुनरीक्षा, लेखापरीक्षण समिति द्वारा की गयी है तथा निदेशक मंडल ने 08 अगस्त 2025 को आयोजित अपनी बैठक में परिणामों का अनुमोदन किया है तथा साँविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा इनकी पुनरीक्षा की गयी है। २. उपरोक्त साराँश, सेबी (सूचीकरण दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली २०१५ के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास फाइलबद्ध 30 जून 2025 को समाप्त तिमाही के एकल परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक साराँश है। इन वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) पर तथा

कुलदीप कुमार धर

प्रबंध निदेशक, डीआईएन — 002299386

कंपनी की वेबसाइट (www.morganventures.in) पर उपलब्ध है।

स्थान : नई दिल्ली

दिनाँक : ८ अगस्त 2025

संतुष्टि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली

दुकानों के आवंदन हेतु आवेदन आमंत्रित करने हेतु सूचना

 वायु ऑफिश्तर कमांडिंग, वायु सेना स्टेशन नई दिल्ली, निम्नांसिखित विवरण के अनुसार संतुष्टि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, तेजस कैंप. लोक कल्याण मार्ग, नई दिल्ली – 110003 में दुकानों के आवंटन के लिए निवासी भारतीय नागरिकों से मुहरबंद आवेदन आमंत्रित करता है:

कम संख्या दुकान क्रमांक क्षेत्रफल (र्ल हूट) डिजाइनर बुटीक चाय बुटीक 03 581 07 03 08 यूनिसेक्स ब्यूटी सैलून/स्पा आभूषण की दुकान/बुटीक/गृह सज्जा 05 21 सिगार की दुकान/कलाकृतियाँ/उपहार वस्तुएँ/गृह सज्जा 27 06 32 उच्च श्रेणी के पुरुषों के वस्त्र और सहायक उपकरण/ब्रांडेंड खेल उपकरण आउटलेट 35 हस्तशिल्प / डिजाइनर बुटीक/गृह सज्जा हस्तशिल्प / डिजाइनर बुटीक / गृह सज्जा यूनिसेक्स ब्राइडल एथनिक वियर/डिजाइनर बुटीक

रक्षा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स (रखरखाव एवं प्रशासन) नियम, 2006 के अनुसार आवंटन की अवधि आवंटन की वास्तविक तिथि से तीन वर्ष

 दुकान के आवंटन की दरें लाइसेंस शुल्क ₹160/- प्रति वर्ग पुट, रखस्थाव शुल्क ₹ 60/- प्रति वर्ग पूट और जीएसटी @18% के रूप में लिया जाएगा। इसके अलावा पानी और बिजली का शुक्क खपत के अनुसार लिया जाएगा। रखरखाव शुक्क हर साल 5% बढ़ाया जाएगा । अनुकंप अवधि के दौरान किसी भी समय प्रवेधन समिति एसएससी द्वारा लाइसेंस शुल्क और रखरखाव शुल्क की दरों को संशोधित किया जा सकता है।

आवेदन पत्र संतुष्टि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कार्यालय से 11 अगस्त 25 से शुरू होने वाले सभी कार्य दिवसों पर 1100 बजे से 1630 बजे तक र 500/- (गैर-वापसी योग्य) की दर से प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या आईसीआईसीआई, एवडीएकसी और एविसस बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक के रूप में एक महीने के लाइसेंस शुल्क के बराबर बंघाना राशि जमा (ईएमडी) यानी (दुकान का क्षेत्रफल x ₹160/- प्रति वर्ग फुट) "संतुष्टि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स" के पक्ष में लिखा जाना चाहिए इएमडी के साथ सभी प्रकार से विधिवत पूरा किया गया आवेदन पत्र 27 अगस्त 25 तक 1500 बजे या उससे पहले संतुष्टि कार्यालय में जमा किया जाना है। ईएमडी के बिना आवेदन पत्र को खारिज कर दिया जाएगा

मावी आवंटियों के लिए दुकानों के आवंटन या किसी अन्य मुद्दे के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण 27 अगस्त 25 तक सभी कार्य दिवसों को 1100 बजे से 1830 बजे के बीच संतुष्टि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के कार्यालय में संबोधित कि ए जाएगा। आवेदन बॉक्स 28 अगस्त 25 को 1100 बजे संतष्टि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में खोला जाएगा। आवेदन बॉक्स खलने के बाद पद आवेदनों की जांच की जाएगी। आवेदक या प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से केवल उदघाटन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। डॉ द्वारा कानों का आवटन,

(यदि लागू हो) 04 सितम्बर 25 को 1100 बजे संतुष्टि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया टेली नंबर 011-20867237 पर संपर्क करें या santushtishoppingcomplex123@gnail.com

वायु ऑफिसर कमांडिंग, थायु सेना स्टेशन, नई दिल्ली, बिना कोई कारण बताएं किसी मी दुकान को वापस लेने और ४ या फिसी निविदा या आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सरक्षित रखता है

ग्रग्राम

द्रिनॉक— 08 अगस्त, 2025

NIIT Limited

Regd Office: Plot No. 85, Sector - 32, Institutional Area, Gurugram - 122001 (Haryana) India

Tel: +91 (124) 4293000 Fax: +91 (124) 4293333 Website: www.niit.com Email: investors@niit.com

Corporate Identification Number: L74899HR1981PLC107123

(Rs. in Millions, except per share data)

आरएलएम-बजेश अवस्थी-9918301885 आरआरएम – औ पुष्कर अवस्थी-9453043399 सीएलएम-वर्तुल पंडित - 9627074548,

सेक्टर-57, फेंज-III, जिला गौतमबुध नगर, नोएडा, सीआरएम - जनेश्वर प्रसाद-9917778324 उत्तर प्रदेश-201301, स्थित कम्पनी के कार्पोरेट कार्यालय में आयोजित की जाएगी, जिसमें, अन्य अचल संपत्ति के भौतिक कब्जे की विशयों के साथ, 30 जून, 2025 की समाप्त तिमाही सार्वजनिक सूचना हेत् कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम विचारित

यह सुवना कम्पनी की वेवसाइट :www.amcoindalimited.com, और वीएसई लिमिटेड की वेबसाइटwww.bseindia.com, पर भी उपलब्ध है।

वास्ते एमको इंडिया लिमिटेड हस्ता/-राजीव गुप्ता स्थान : नोएडा, यू.पी. विनांक : 07.08.2025 प्रबंधक निदेशक

गाड़ी स. 14047

आगमन प्रस्थान

21:25 21:27

13:45

11:25

08:45

07:20

05:25

04:06

03:46

02:28

01:25

00:38

00:10

22:40

17:22

13:50

11:35

08:50

07:23

05:35

04:08

03:48

02:30

01:30

00:40

00:15

22:42

22:15

HINDUJA दुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड पंजी: कार्यालयः नं. 167-169, डितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई-600015, मिल: auction@hindujahousingfinance.com सिरी मीजल, ऑरएस टीवर, सेक्टरॅं-1, मंगल पांडे र, डॉ. विवेक जैन क्लिनिक के पास, मेरट-25000

श्री संदीप, मकान नं. 47, वी.पी.ओ. शेखपुर

ਲੀਜ ਜ. DL/JNK/JNKP/A000000494 फाइनेंस लिमिटेड द्वारा अधिग्रहित किया गया है।

के मामले में इंटरग्लोब होटलस प्राईवेट लिमिटेड (CIN: U55101DL2004PTC128567)

जिसका पंजीकृत कार्यालयः तीसरा फ्लीर, डॉ. गोपाल

दास भवन 28, बाराखम्मा रोड, सेंट्रल दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, इंडिया, 110001 आम जनता को यह सचनों दी जाती है कि याचिकाकत कपनी कंपनी अधिनियम 2013, घारा 13(4) के तहत, क्षेत्रीय निदेशक को सीपी गई शक्तियों के अंतर्गत् केंद्रीय सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है

पंजीकत कार्यालय के प्रस्तायित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हिर प्रमावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टर (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर प्रकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित के के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, 🖥 पॉरेट मामलों के मंत्रालय को इस सुधना के प्रकाशन को तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, हितीय तन, पंडित दीनदयाल अत्योदय भवन, सीजीअ कॉम्प्लेक्स, नई

इंटरग्लोब होटलस प्री वेट लिमिटेड

र्णकालिय निदेशक डीआईएन : 0. 987709 2बी डीएलएफ ऑपॉरेट यता : ब्लॉक २ए एण्ड २वी, डीएलएफ ऑपॉरेट पार्क, डीएलएफ सिटी फेस-III, एम, जी रोड, गुडगांव, हरियाणा, इंडिया, 12,002

2. श्रीमती बबीता, मकान नं. 47. वी.पी.ओ शेखपुर

बाबुगद हापुड 245201 सह उधारकत

जबकि, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हापुड़, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 04.06.2025 को पारित आवेश के अनुसार, सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि 'मुखंड सं. 23 के दक्षिणी भाग पर निर्मित, खसरा संख्या 74/1 में समाहित, क्षेत्रफल 85.73 वर्ग गज. वकसेनपुर उर्फ नगर क्षेत्र बाबूगढ़ की बाहरी सीमा परगना, तहसील एवं जिला हापुड-245201 में स्थित की सम्पत्ति का **भीतिक** कब्जा 02.08.2025 को मैसर्स हिंदुजा हाउसिंग विशेष रूप से उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति का सीदा न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन मैसर्स हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के

प्राधिकृत अविकारी हिंदुजा हाउसिंग दिनांक : 07-08-2025,

"प्रपत्र सं. आईएनसी—26" (कंपनी (निगमन) निधम, 2014 के निधम 30 के अनुसरण में) केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष (उत्तरी क्षेत्र) कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कंपनी (निगमन)

नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए), यथा संशोधित कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी

जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' से 'हरियाणा राज्य' में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 28 जुलाई, 2025 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की पृष्टि की मांग की गई हैं।

दिल्ली-110003 पते पर पंजीवृत्त डाक द्वारा मेज सकता है या सुपुद कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपूनी को उनके उपरोक्त फंजीकृत कार्यालय

दिनांक : 08.08.2025

के पते पर भी भेजेगा।

Place: Gurugram

Extract of Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2025

	Particulars	Consolidated				Standalone			
			Quarter ende	d	Year ended	Quarter ended			Year ended
S. No.		3 months ended June 30, 2025 Unaudited (Refer note 4)	3 months ended March 31, 2025	Correspond- ing 3 months ended June 30, 2024 Unaudited	ACTION AND AND ACTION ACTION AND ACTION ACTION AND ACTION ACTION AND ACTION ACTI	3 months ended June 30, 2025	Preceding 3 months ended March 31, 2025 Audited	Correspond- ing 3 months ended June 30, 2024 Unaudited	Previous year ended March 31, 2025
						Unaudited			Audited
1	Total Income from Operations	841.17	862.85	824.75	3,575.83	267.64	284.99	300.28	1,259.52
2	Net Profit for the quarter (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	69.29	168.35	97.54	591.64	49.03	194,69	58,06	383.33
3	Net Profit for the quarter before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	50.03	165.85	97.54	589.14	47.75	192.19	58.06	380.83
4	Net Profit for the quarter after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) (before discontinued operations)	42.43	137.73	82.78	495.13	46.63	190.85	57.31	375.86
5	Loss after tax from discontinued operations	(0.51)	(0.76)	(0.83)	(14.97)	(0.51)	(0.76)	(0.83)	(14.97)
6	Net Profit for the quarter after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	41.92	136.97	81.95	480.16	46.12	190.09	56.48	360.89
7	Total Comprehensive Income for the quarter [Comprising Profit for the quarter (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	31.94	135.06	78.17	487.16	38.14	185.96	54.87	361.54
8	Paid-up equity share capital (face value of Rs. 2 each, fully paid)	271.45	271.19	270.57	271.19	271.45	271.19	270.57	271.19
9	Reserves excluding revaluation reserves				10,517.53				10,357.74
10	Earnings/(Loss) Per Share (of Rs. 2/- each) (not annualised for the quarter, in Rs.) Continuing Operations - Basic - Diluted	0.32 0.31	0.98 0.97	0.58 0.57	3.52 3.47	0.34 0.33	1.41 1.39	0.43 0.42	2.78 2.74
	Discontinued Operations - Basic - Diluted	(0.00) (0.00)	(0.01) (0.01)	(0.01) (0.01)	(0.11) (0.11)	(0.00) (0.00)	(0.01) (0.01)	(0.01) (0.01)	(0.11) (0.11)
	Continuing and Discontinued Operations - Basic - Diluted	0.32 0.31	0.97 0.96	0.57 0.56	3.41 3.36	0.34 0.33	1.40 1.38	0.42 0.41	2.67 2.63

Notes:

The above is an extract of the detailed format of quarterly / year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended). The full format of Financial Results is available on the website of Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website www.niit.com under Investors → Disclosures under Regulation 46 of the LODR → Financial Results. The same can also be accessed by scanning the QR code given below.

The above results were reviewed and recommended by Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on August 08, 2025.

Total Income from Operations represent revenue from operations.

On April 17, 2025, the Group entered into Share Subscription and Purchase Agreement (*SSPA*) and other related transaction documents with iamneo Edutech Private Limited ("NEO") and acquired 70% equity shareholding (on a fully diluted basis) in NEO for a consideration of Rs. 608.90 Million including primary investment of Rs. 100.01 Million. The remaining 30% shareholding of NEO will be acquired by the Group from the NEO promoters in subsequent tranches over the next five years, subject to certain terms and conditions outlined in the SSPA and other transaction documents. The Consolidated Financial Results for quarter ended June 30, 2025, includes performance of NEO for the period from April 17, 2025 to June 30, 2025. Consequently, the results for the current period are not comparable with the corresponding previous periods.



By order of the Board For NIIT Limited

Vijay K Thadani Vice-Chairman & Managing Director

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

Date : August 08, 2025

epaper.jansatta.com